

HPL Electric & Power Limited

CIN: L74899DL1992PLC048945

Corporate Office: 76-B, Phase-IV, Sector-57, HSIIDC Industrial Estate,

Kundli-131028, Sonipat, Haryana INDIA.

Tel.: +91-130-350 3958, 350 3437 | E-mail: hpl@hplindia.com

Website: www.hplindia.com

February 13, 2025

The Manager, Listing Department, **National Stock Exchange of India Ltd.** "Exchange Plaza", C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra, Mumbai – 400 051

The Secretary **BSE Limited**25th Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
PhirozeJeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Symbol: HPL Scrip Code: 540136

Subject: Publication of Newspaper Advertisement

Dear Sir/Ma'am

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of the Newspaper Advertisement (Un Audited Financial Results for the quarter ended December 31, 2024) published today i.e. **Thursday, February 13, 2025** in Business Standard (English and Hindi Edition).

This is for your kind information and record please.

Thanking You,

For HPL Electric & Power Limited

Vivek Kumar Company Secretary

Encl: As sated above

Registered Office: 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 Tel.: +91-11-23234411 | Fax:+91-11-23232639



ECOS (INDIA) MOBILITY & HOSPITALITY LIMITED

(Formerly Ecos (India) Mobility & Hospitality Private Limited) Registered & Corporate Office: 45. First Floor, Corner Market, Malyiva Nagar, New Delhi, India – 110017 Corporate Identity Number: L74999DL1996PLC076375

Phone: +91 11 41326436 | Website: www.ecosmobility.com | E-mail: legal@ecorentacar.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2024

The Board of Directors of the Company, at their meeting held on Wednesday, February 12, 2025, approved the un-audited financial results (standalone and consolidated) of the company for the quarter and nine months period ended on December 31, 2024.

The results along with the Auditor's Limited Review Report, have been posted on the Company's website at www.ecosmobility.com and can be accessed by scanning the QR Code.

47(1) of SEBI (Listing Obligation & Disclosure requirements) Regulations, 2015

By Order of the Board For Ecos (India) Mobility & Hospitality Limited

Place: Delhi Date: 12.02.2025

Rajesh Loomba (Chairman & Managing Director)

Note: The above intimation is in accordance with the Regulation 33 read with Regulation



For More

Information Please Scan:

JAYKAY ENTERPRISES LIMITED

CIN: L55101UP1961PLC001187

REGISTERED OFFICE: KAMLA TOWER, KANPUR UP- 208001 Tel:-+91 512 2371478-81

E-mail: cs@jaykayenterprises.com, Website: www.jaykayenterprises.com

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND **NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31. 2024**

In Compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Board of Directors of Jaykay Enterprises Limited ("Company") at its meeting held on Tuesday, February 11, 2025, approved the unaudited financial results (standalone and consolidated) as reviewed by the Audit Committee, for the quarter and nine months ended December 31, 2024 ("Results").

The Results, along with the Limited Review Reports (standalone and consolidated) by M/s P. L. Tandon & Company, Chartered Accountants, Statutory Auditor of the Company are available on the website of the Company at www.jaykayenterprises.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com.

In compliance of Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, we hereby inform that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:



Abhishek Singhania Chairman & Managing Director

For Jaykay Enterprises Limited

Going beyond Commitment,



SUVEN PHARMACEUTICALS LIMITED

Chakala Midc, Mumbai, Mumbai, Maharashtra, India, 400093. CIN:L24299MH2018PLC422236 Tel: 91 40 2354 9414/ 3311/ 3315 Fax: 91 40 2354 1152

email: investorservices@suvenpharm.com website: www.suvenpharm.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2024

(₹ in Crores)

									(Kin Crores,		
			STAND	ALONE			CONSOLIDATED				
SI No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Nine months ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Nine months ended	Year ended		
		31-Dec-24	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Mar-24	31-Dec-24	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Mar-24		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total income from operations	275.39	212.82	733.54	1024.99	307.15	219.82	795.56	1051.35		
2	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	114.60	69.50	302.67	408.77	109.73	65.47	292.32	405.67		
3	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	114.60	69.50	302.67	408.77	109.73	65.47	292.32	405.67		
4	Net profit for the period After tax (after exceptional and/or extraordinary items)	86.35	52.36	227.75	304.82	83.29	46.75	226.04	300.28		
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	86.26	51.51	227.59	304.53	86.03	45.91	229.31	313.49		
6	Equity share capital	25.46	25.46	25.46	25.46	25.46	25.46	25.46	25.46		
7	Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet.		203	0.44			202	5.21			
8	Earning Per Share (EPS)- Restated (Face value of Rs.1/- each):										
	1. Basic:	3.39	2.06	8.95	11.97	3.26	1.84	8.87	11.80		
	2. Diluted:	3.37	2.06	8.91	11.97	3.23	1.84	8.83	11.80		
		(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(annualised)		

Notes: 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quaterly Financial Results are available on the websites of the stock exchanges(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and company's website www.suvenpharm.com.

The financial Results along with the Limited Review Report can be accessed by scanning the QR code

Place: Hyderabad Date: 12th February, 2025



For SUVEN PHARMACEUTICALS LTD

Vivek Sharma Executive Chairman DIN: 08559495

WE DELIVER.

ASAHI INDIA GLASS LIMITED

Date: February 11, 2025

Place: New Delhi

CIN: L26102DL1984PLC019542 Registered Office: A-2/10, 1st Floor, WHS DDA Marble Market, Kirti Nagar, New Delhi – 110 015, **Phone:** (011) 49454900 Corporate Office: 3rd Floor, Tower - D, Global Business Park, Mehrauli-Gurugram Road, Gurugram - 122 002 (Haryana) Phone: (0124) 4062212-19. Fax: (0124) 4062244/88

Email: investorrelations@aisglass.com, Website: www.aisglass.com NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section(s) 108 & 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force ("Act"), read with Rule(s) 20 & 22 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 ("Rules"), read with MCA General Circular Nos 14/2020, 03/2022, 11/2022, 09/2023 and 09/2024 dated 8th April, 2020, 5th May, 2022, 28th December, 2022, 25th September, 2023 and 19th September, 2024, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR"), as amended, Secretarial Standard – 2 on General Meetings ("SS-2") ssued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") and pursuant to other applicable laws and regulations, the Company has on Wednesday February, 2025 completed the circulation of Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement through email to the Members whose e-mail IDs are registered in the Depositories, RTA and Company's records as on Friday, $7^{ ext{th}}$ February, 2025 ("Cut-off Date"), for seeking the consent of Members of the nrough remote e-voting as set out in the Pos Board of Directors of the Company have appointed Mr. Sanjeev Pandey, Partner of SSPK & Co., Company Secretaries, to act as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot only through remote e-voting process, in a faii The facility of casting the votes by the members using remote e-voting facility

will be provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company www.aisglass.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The aforesaid Notice is also available on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

The Voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, 7th February, 2025. Voting process only through remote e-voting shall commence from 9:00 a.m. (IST) on Friday, 14th February, 2025 and will remain open up to 5:00 p.m. (IST) on Saturday, 15th March, 2025. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The Resolutions, if passed by requisite majority, through this Postal Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed on the last date specified by the company for receipt of vote i.e. Saturday 15th March, 2025. Further, resolutions passed by the Members through Postal Ballot are deemed to have been passed as if they are passed at a General

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in Demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
holding securities in	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact toll free no. 1800 21 09911
holding securities in	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact toll free no. 022-48867000 and 022-24997000

After completion of scrutiny of the votes, the Scrutinizer will submit his Report to the Chairman & Managing Director of the Company or any person authorized by him, in his absence. The results of the voting conducted through Postal Ballot (through the remote e-voting process) will be announced by the Chairman & Managing Director or any person authorized by him within 2 (two) working days from the conclusion of remote e-voting process i.e. on or before Tuesday, 18th March, 2025. The said results along with the Scrutinizer's Report, will also be displayed on the website of AIS (www.aisglass.com) and communicated to the Stock Exchanges and CDSL. The proposed resolutions, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date specified by

the Company for receipt of vote i.e. Saturday, 15th March, 2025. In terms of the MCA Circulars, AIS has sent Postal Ballot Notice in electronic form only. The hard copy of this Postal Ballot Notice along with Postal Ballot forms and pre-paid business envelope is not sent to the members in accordance with the requirements specified under the said Circulars. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the members would take place through the remote e-voting system only. Therefore, those members who have not yet registered their e-mail address are requested to get their e-mail addresses registered by following the procedure given below:

- In light of the MCA Circulars, any member who has not registered his / he e-mail address and in consequence could not receive the Postal ballot e-voting notice may temporarily get their e-mail registered at Company's e-mail ID <u>investorrelations@aisglass.com</u>, on or before 5:00 p.m. (IST) on Friday, 7th March, 2025, pursuant to which, the Member will receive the notice of this Postal Ballot on the e-mail ID provided by him / her along with the procedure for remote e-voting and the login ID and password for remote e-voting.
- It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are however requested to register their e-mail address, in respect of electronic holdings with the Depository through the concerned Depository Participants and in respect of physical holdings with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited.

Date: 12th February, 2025

lace: Gurugram

For Asahi India Glass Limited

Gopal Ganatra Executive Director General Counsel & Company Secretary Membership No. F7090

JHS SVENDGAARD RETAIL VENTURES LIMITED (JHS SVENDGAARD RETAIL VENTURES PRIVATE LIMITED)

DIN: 00087844

Redg Office: Fifth Floor, Plot No. - 107, Sector-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122001. CIN-L52100HR2007PLC093324 Extract of Unaudited Financial Results For The Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2024

Particulars	Quarter Ended 31 st December 2024 Unaudited	Quarter Ended 30 th September 2024 Unaudited	Quarter Ended 31 st December 2023 Unaudited	Nine Months Ended 31st December 2024 Unaudited	Nine Months Ended 31 st December 2024 Unaudited	Year Ended 31 st March 2024 Audited
Total income from operations	453.77	382.64	329.18	1182.93	964.63	1304.81
Net Profit / (Loss) for the period (before tax,						
exceptional item and/or extraordinary items)	(57.61)	10.68	15.41	(32.34)	14.74	29.08
Net Profit / (Loss) for the period (before tax after						
exceptional and/or extraordinary items)	(57.61)	10.68	15.41	(32.34)	14.74	29.08
Net Profit / (Loss) for the period (after tax						
exceptional and/or extraordinary items)	(47.84)	18.83	18.56	(19.32)	16.62	25.48
Total comprehensive income for the period		-	-	-	-	-
Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	650.46	650.46	650.46	650.46	650.46	650.46
Earnings per equity share of (Rs. 10 each)						
(a) Basic (Rs)	(0.74)	0.29	0.29	(0.30)	0.26	0.39
(b) Diluted (Rs)	(0.74)	0.29	0.29	(0.30)	0.26	0.39

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December 2024 are available at the website of the BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and also on Company's website at www.svendgaard.com For and behalf of



NIKHIL NANDA naging Director DIN 00051501



Date : February 12, 2024 Place : New Delhi

HPL ELECTRIC & POWER LIMITED

CIN: L74899DL1992PLC048945 Regd. Office: 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002 Ph.: +91-11-23234411, Fax: +91-11-23232639 E-mail: hpl@hplindia.com, Website: www.hplindia.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE

	QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024 (Rs. in									
Sr.		C	uarter ende	ed	Nine Mon	Year Ended				
No.	Particulars	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024			
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total Income from Operations	39,247.63	42,232.36	36,556.96	1,20,770.55	1,03,676.53	1,46,085.81			
2	Net Profit/ (Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,441.32	2,911.55	1,897.46	7,653.84	4,670.02	6,809.94			
3	Net Profit/ (Loss) for the Period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,441.32	2,911.55	1,897.46	7,653.84	4,670.02	6,809.94			
4	Net Profit/ (Loss) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,808.97	2,158.41	1,194.66	5,670.39	2,990.80	4,362.54			
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax))	1,766.33	2,124.42	1,188.10	5,569.38	2,972.35	4,120.09			
6	Equity share capital	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	_	_	_	_	_	76,393.34			
8	Earnings Per Share (face value of Rs. 10 each)									
	1. Basic (Rs.)	2.81	3.35	1.86	8.81	4.64	6.78			
	2. Diluted (Rs.)	2.81	3.35	1.86	8.81	4.64	6.78			
KEY	STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR T	HE QUARTE	R AND NINE	MONTHS EN	DED DECEN	BER 31, 2024	(Rs. in Lakhs)			
Sr	D . (1)	C	uarter ende	ed	Nine Mor	ths Ended	Year Ended			

ļ۴	KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024 (Rs. in Lakhs)									
IГ,	Sr.		Q	uarter ende	ed	Nine Mon	Year Ended			
	No.		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024		
[NO.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
	1	Total Income from Operations	38,471.80	40,122.23	35,758.94	1,17,602.52	1,00,761.21	1,42,091.65		
${\sf I}{\sf I}$	2	Profit before tax	2,395.57	2,610.58	1,830.92	7,262.73	4,383.55	6,446.97		
	3	Profit after tax	1,783.61	1,948.82	1,154.29	5,411.06	2,806.98	4,125.98		

Notes: 1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director's at their respective meetings held on February 12, 2025. The statutory auditors of the Company have conducted limited review of these financial results, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015.

The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and nine months ended financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website www.hplindia.com

3) Previous guarter/year ended figures have been regrouped/ restated wherever necessary

Place: Kundli

Date: 12.02.2025

For and on behalf of the Board of HPL Electric & Power Limited Rishi Seth Managing Directo DIN:00203469

Meters | Modular Switches | Lighting | Switchgear | Wires & Cables | Solar Solutions | Fans

SANGAM (INDIA) LIMITED

CIN: L17110NJ 1804FLC0003173

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024
(₹ in Lakhs)

	Particulars 0	uarter End	ed	N	line Months	3	Financial
					Ended		Year Ende
		31.12.24	30.09.24	31.12.23	31.12.24	31.12.23	31.03.24
			Unaudite	ed	Unaud	lited	Audited
1	Total Income from Operations	75080	67704	62402	212594	193605	264085
2	Net Profit/(Loss) before Exceptional & Extraordinary Items & tax	1048	466	604	3638	3912	6003
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	882	300	438	3140	3414	5339
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	245	555	381	2228	2716	4082
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ Loss for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	203	766	429	2631	2758	4047
6 7 8	Paid-up Equity Share Capital Other Equity Earning per share (Refer Note No.5) (in Rs.)	5025	5025	5025	5025	5025	5025 93407
	(1) Basic EPS before exceptional items	0.82	1.43	1.10	5.43	6.47	9.55
	(2) Basic EPS after exceptional items	0.49	1.10	0.77	4.43	5.46	8.21
	(3) Diluted EPS before exceptional items	0.82	1.43	1.10	5.43	6.47	9.55
	(4) Diluted EPS after exceptional items	0.49	1.10	0.77	4.43	5.46	8.21

.The above unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended and Nine Month ended 31st December, 2024 have been prepared by the Company in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 (as amended) and were reviewed by the Audit Committee and thereafter were approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 12th February, 2025. The Statutory Auditors of the Company has carried out a Limited Review of the above financial results and have issued a unqualified conclusion thereon. The full format of aforesaid Financial Results are available on the Stock Exchange Websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the

full format of aforesaid Financial Results are available on the Stock Exchange Websites www.nsennia.com and www.usennia.com and also on the Company's website www.sangamgroup.com.

2. As per regulation 47(b) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 result on standalone basis for the quarter ende

3. 1st December, 2024 is given: (1) Total Income from Operations 74394 Lakhs (2) Profit/Loss Before Tax 649 Lakhs and (3) Profit/Loss after Tax 53 Lakhs.

3. The Exceptional items includes proportionate value of sweat equity shares issued during the year ended 31 st March, 2023.

4. The figures of the previous period have been re-grouped / rearranged and / or recast wherever considered necessary.

Date: February 12, 2025 Place: Bhilwara



Chairma DIN: 00401439

(R.P. Soni

Regd.Off.: Atun, Chittorgarh Road, Bhilwara-311001 (Raj.) Phone: 01482-245400, Fax: 01482-245450 Web: www.sangamgroup.com, Email: secretarial@sangamgroup.com

BP

ebruary 12, 2025

BPL LIMITED

Read. Office: BPL Works. Palakkad - 678 007. Kerala. CIN: L28997KL1963PLC002015 e-mail: investor@bpl.in. URL: www.bpllimited.com. Tel: No.+91 80 25589109

Statement of Standalone and Consolidated unaudited financial

results for the third quarter ended 31 December 2024										
		ı	04		(Rs. in Lakhs) Consolidated					
SI.	Particulars	Standalone Quarter Ended 9 months Ended			Quarte	9 months Ended				
No.	T uniodiuro	31-Dec-24	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-24	31-Dec-23	31-Dec-24			
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)			
1.	Total Income from Operations	1,945.36	1,457.79	6,919.93	1,951.51	1,442.35	6,935.62			
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	30.76	167.73	1,782.62	31.29	145.76	1,775.55			
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	30.76	167.73	1,782.62	31.29	145.76	1,775.55			
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	30.76	167.73	1,782.62	31.29	145.76	1,775.55			
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	30.76	167.73	1,782.62	31.29	145.76	1,775.55			
6.	Paid up Equity Share Capital	4,897.67	4,897.67	4,897.67	4,897.67	4,897.67	4,897.67			
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	21,838.35	20,081.55	21,838.35	21,819.08	20,080.39	21,819.08			
8.	"Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -									
	1. Basic:	0.06	0.34	3.64	0.06	0.30	3.63			
	2. Diluted:"	0.06	0.34	3.64	0.06	0.30	3.63			

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules.

Notes: a) The above is an extract of the detailed format of quarterly unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the (SEBI) LODR Regulations. Full format of the unaudited financial results is available on the websites of the Stock Exchanges and the listed entity. b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to Stock exchanges and can be accessed on their URL (www.bseindia.com, www.nseindia.com) c) There is no impact on net profit/ loss, total comprehensive income or any other relevant financial item due to changes in accounting policies.

For **BPL Limited** Sd/-

Aiit G Nambiar Chairman & Managing Director punjab national bank

| **पंजाब नैशनल बैंक** | मिडकॉपोरेटकेन्द्र, शाहपुरा, भोपाल फोन: 0755-2559101, 2570376

मांग सूचना (सरफेसी एक्ट, २००२ की धारा १३(२)के अंतर्गत)

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन . अधिनियम 2002 के नियम 3 (1) के अन्तर्गत नोटिस)

ऋणधारी एवं जमानतदार का नाम एवं पता 1. मेसर्स लायन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री हिमांशु दुकराल के माध्यम से पंजीकृत/कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः

IX/7428, मेन रोड, गांधीनगर, नई दिल्ली-110031 फैक्टरी का पता: ग्राम धोबी खोड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर-466001 (मध्य प्रदेश) 2. श्री राजकुमार ढुकराल निदेशक मेसर्स

लायन फैब्रिक्स प्राडवेट लिमिटेड मकान नंबर 3/9, अताउर रहमान लेन, हिल रोड के नीचे, सिविल लाइन्स उत्तरी दिल्ली-110054

3. श्री हिमांशु दुकराल निदेशक मेसर्स

लायन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड मकान नंबर 3/9 अताउर रहमान लेन हिल रोड़ के नीचे, सिविल लाइन्स उत्तरी दिल्ली-110054 4. मैसर्स लायन जीन्स (साझेदारी फर्म) अपने साझेदार श्री राजकुमार दुकराल और श्री हिमांशु ढुकराल के माध्यम से मेसर्स लायन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पेरिट गारंटर

IX/7428, मेन रोड, गांधीनगर, नई दिल्ली-110031

मांग सचना के अनसार <u>बँकाया राशि</u> . फेक्ट्री यूनिट, भूमी एवं बिल्ङिंग खसरा नं. 234/1,223/1 के माध्यम से निदेशक श्री राजक्मार दुकराल 51,83,13,861.96 224/3, 226, 224/1, 235/1, 235/2, 232/8,233/2, 168/2/5, 170/7, 231/2/घ, 169/4/ड, 170/7, 231/2 + देय ब्याज एवं अन्य खर्च 169/4, 231/2/픽/232/3,232/9, 233/1, 239/5, 232/2,228/2/1, 227/1,225,229 ग्राम धोबी खोड़ी, हिसील-श्यामपुरा, जिला-सीहोर (म.प्र.) स्थित, क्षेत्रफल: 47.65 एकद जिसमें सभी भवन मशीनरी फर्नीचर एवं फिक्स्चर गोटाम मांग सूचना पत्र दिनांक: , और निर्माण सहित . संपत्ति मालिक : लॉयन फैब्रिक्स प्रा. लि.. सीमाएँ 05-02-2025 **बैड अनुसार** : पूर्व – मालिकों की भूमि, पश्चिम – विक्रेता की भूमि,

> की भूमि, उत्तर-मालिकों की भूमि, दक्षिण-विक्रेता की भूमि 2. प्लाट नं. 03 कॉटेज –9, वार्ड नं 15, अताउर रहमान, अंडर हिल लेन सिविल लाईन्स दिल्ली-110051 क्षेत्रफल : 530 52 वर्ग मीटरः सीमाएँ: पर्व – प्राईवेटनं, १ प्लाटनं, ३. पश्चिम – १६'९'' चौडी अताउर रहमान लेन/इंट्रो, उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- प्राईवेट नं.८ प्लाटनं. ३, संपत्ति मालिक : श्री राज कुमार

उत्तर – प्रेम नारायण की भूमि, दक्षिण – विक्रेता की भूमि, **मूल्यांक** साइटविजिटके अनुसार : पूर्व – मालिकों की भूमि, पश्चिम – विक्रेता

3. फ्रीहोल्उ आवासीय एवं कामर्शियल बंधक संपत्ति प्लाट नं. 116 ई ब्लॉक कमला नगर, दिल्ली, क्षेत्रफल : 2200 वर्ग फिट सूपर बिल्टअप 1980 वर्ग फिट बिल्टअप , 256.7 वर्ग यार्ड पर बेसमेंट निर्माण किया गया । सीमाएँ : पर्व– 60 फिट चौडी रोड पश्चिम– एस/एल 15 फिट चौडा, उत्तर- संपत्ति संख्या नं, 117, दक्षिण-संपत्ति संख्या नं 115, संपत्ति मालिक : श्री राज कुमार टुकराल

4. फ्लैट नं. 301, ब्लॉक–डी, एक्सोटिका एलिगेंस खासरा नं. 527/1 एवं 527/4, ग्राम मोहिउद्दीनपुर कनावनी, तहसील- दादरी, जिला-गौतम बुद्ध नगर, यू.पी, कुल क्षेत्रफल: 1620.16 वर्ग फिट, सीमाऐं पूर्व- 24 मीटर चौडी रोड, पश्चिम-लिफ्ट/फ्लैट नं. 303, उत्तर-प्रवेश द्वार /फ्लैटनं. 302, दक्षिण–खुला, संपत्ति मालिक : श्री राज

उपरोक्त उल्लेखित उधारकर्ताओं और जमानतदार के अनुरोध पर पंजाब नैशनल बँक ,एम.सी.सी ,भोपाल (म.प्र.) ने क्रेडिट सुविधाओं की मंजूरी दी। आपव द्वारा मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप उपरोक्त खाते को एनपीए (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है उधारकर्ताओं और गारंटरो को उपरोक्त तारीखों पर धारा 13 के उपखंड (2) सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड इनफोर्समें ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत दिए गए पते पर मांग नोटिस जारी किए गर्ये। उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) सपटित प्रतिनृतिहित प्रवर्तन अधिनियम के नियम 3 के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिवस के अन्दर उपरोक्त ऋणी से अपनी देयताओं को संपूर्ण रूप से भुगतान करने की मांग करता है। ऋणी उपरोक्त तालिका में दी गई तिथि के उपरान्त भी वूसली योग्य राशि पर, संविदा की दर से, भविष्य की अवधि के लिए ब्याज एवं अनुषंगी व्यय, मूल्य प्रभार आदि के लिए भी देनदार होंगे। यदि इस मांग सूचना पत्र के उपरान्त भी ऋणी निर्धारित अवधि में ऊपर तालिका में इनके नाम के सामने वर्णित देये राशि तथा भविष्य की अवधि का ब्याज एवं अनुषंगी व्यय आदि जैसा कि अधिनियम की घारा 13 (2) में वर्णित है का पुर्नभुगतान करने में असफल रहते है तो बँक अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त समस्त अथवा कोई भी अधिकार का उपयो करेगी। ऋणी तथा जमानतवार को यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 13 के प्रावधानों के अन्तर्गत व उपरोक्त तालिका में वर्णित पंजाब नेशनल बैंक के हित में प्रतिभूति की गई आस्तियों को बैंक की लिखित सहमति के बिना विक्रय पत्र , किराये नामें या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करेंगे। ऋणी तथा जमानतदार को यह भी स्पष्ट हो कि उनको जारी इस नोटिस के बावजद पंजाब नेशनल बैंक (आवश्यकता होने पर) विधि सम्मत अन्य गावधानों के अन्तर्गत आपके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंव



दिनांक : 13.02.2025, स्थान : भोपाल

HPL ELECTRIC & POWER LIMITED

CIN: L74899DL1992PLC048945 Regd. Office: 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002 **Ph.**: +91-11-23234411, **Fax**: +91-11-23232639 E-mail: hpl@hplindia.com, Website: www.hplindia.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

Sr.		Q	uarter ende	ed	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
No.	Particulars	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	39,247.63	42,232.36	36,556.96	1,20,770.55	1,03,676.53	1,46,085.81
2	Net Profit/ (Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,441.32	2,911.55	1,897.46	7,653.84	4,670.02	6,809.94
3	Net Profit/ (Loss) for the Period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,441.32	2,911.55	1,897.46	7,653.84	4,670.02	6,809.94
4	Net Profit/ (Loss) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,808.97	2,158.41	1,194.66	5,670.39	2,990.80	4,362.54
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax))	1,766.33	2,124.42	1,188.10	5,569.38	2,972.35	4,120.09
6	Equity share capital	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	_	-	_		-	76,393.34
8	Earnings Per Share (face value of Rs. 10 each)						
	1. Basic (Rs.)	2.81	3.35	1.86	8.81	4.64	6.78
Ī	2. Diluted (Rs.)	2.81	3.35	1.86	8.81	4.64	6.78

N	KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024 (Rs. in Lakins)									
	r.	raniculais 13	C	uarter ende	ed	Nine Mon	Year Ended			
N	- 1		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024		
IN	0.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
	1	Total Income from Operations	38,471.80	40,122.23	35,758.94	1,17,602.52	1,00,761.21	1,42,091.65		
7	2	Profit before tax	2,395.57	2,610.58	1,830.92	7,262.73	4,383.55	6,446.97		
(3	Profit after tax	1,783.61	1,948.82	1,154.29	5,411.06	2,806.98	4,125.98		

Notes:-

Place: Kundli

- 1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director's at their respective meetings held on February 12, 2025. The statutory auditors of the Company have conducted limited review of these financial results, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015.
- 2) The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and nine months ended financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website www.hplindia.com

3) Previous quarter/year ended figures have been regrouped/ restated wherever necessary.

For and on behalf of the Board of HPL Electric & Power Limited Managing Director DIN:00203469

Date: 12.02.2025 Meters | Modular Switches | Lighting | Switchgear | Wires & Cables | Solar Solutions | Fans

(18.60)

(0.53)

ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएन:-- L74899DL1984PLC018268

पंजीकृत कार्यालयः 98ए, दूसरा तल, नंबरदार एस्टेट, तैमूर नगर, नई दिल्ली—110065 फोन नं.— 011—41064256, फैक्स नं.— 011—26322664, ई-मेल: cs@oswaloverseasltd.com, वेबसाइट: www.oswaloverseasltd.com 31.12.2024 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का सार

						(रु. लाखाम)
क्र. सं.	विवरण	31.12.2024 को समाप्त तिमाही	31.12.2023 को समाप्त तिमाही	30.09.2024 को समाप्त तिमाही	31.12.2023 को समाप्त नौ माह	31.12.2024 को समाप्त नौ माह
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	1423.15	6215.81	267.28	11429.34	3891.98
2.	साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और विशिष्ट मदों से पूर्व)	-462.69	294.06	-334.25	-853.04	-1029.11
2.	कर पूर्व साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	-462.69	259.81	-334.25	-887.29	-1029.11
3.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	-462.10	259.81	-334.25	-887.29	-1028.51
4.	अन्य समग्र आय	2.06	0.78	-0.17	2.76	1.70
5.	शुद्ध लाभ / हानि	-460.04	260.59	-334.43	-884.53	-1026.81
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	646.11	646.11	646.11	646.11	646.11
7.	रु. 5/- प्रत्येक के शेयरों की संख्या (लाख में)	129.22	129.22	129.22	129.22	129.22
7.	आरक्षित निधि (पूर्व वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)					
8.	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (रु. 5/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)					
	बेसिक:	-3.56	2.02	-2.59	-6.85	-7.95
	डायल्यूटेडः	-3.56	2.02	-2.59	-6.85	-7.95

नई दिल्ली

12.02.2025

CAPITAL INDIA

ऊपर सेबी (सूचीब़द्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गये तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का एक सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट (www.oswaloverseasltd.com) पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 12 फरवरी, 2025 को आयोजित उनकी बैठकों में अनुमोदित किए गये हैं।

चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है जिसमें पेराई सामान्यतः नवंबर और अप्रैल के बीच की अवधि में होती है और बिक्री वर्ष भर चलती है। कंपनी का कार्य निष्पादन तिमाही से तिमाही बदलता रहता है।



कैपीटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) [(परिशिष्ट ।८) नियम ८(१)]

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने **कैपीटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड [सीआईएन नं**.

पंजीकत पता: 701, 7वाँ तल. अग्रवाल कारपोरेट टॉवर. प्लॉट नं. 23. डिस्टिक सेन्टर.

सीआईएन नं. U65990DL2017PLC322041

राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110001

ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड के लिए परमजीत सिंह (प्रबंध निदेशक)

Markets, **Insight Out**

Markets. **Monday to Saturday**

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



सावधानी नोटिस सोम रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते(तों) से / में अनधिकृत लेनदेन

आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे मेसर्स सोम

रिजॉर्टस प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") के नाम पर किसी भी बैंक खाते(तों) के साथ मेसर्स कासा इटालिया सोशल वेलफेयर एसोसिएशन (कंपनी के सफल समाधान आवेदक / एस.आर.ए) से वैध प्राधिकरण के बिना कोई भी अनधिकृत लेनदेन न करें। आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (''आई.बी.सी'') के पावधानों के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रकिया (''सी.आई.आर.पी'') से गुजरा है और माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ (''एन.सी.एल.टी'') द्वारा पारित दिनांक 03.12.2024 के आदेश के अनुसार उक्त कंपनी को मेसर्स कासा इटालिया सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। परिणामस्वरूप, कंपनी के मामलों का परा नियंत्रण और प्रबंधन जिसमें दसके बैंक खाते भी शामिल हैं, जोकि अब एस.आर.ए के पास है और किसी भी पर्ववर्ती निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति का कंपनी पर कोई नेयंत्रण नहीं है। इसलिए, आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे एस आर ए के उचित और वैध पाधिकरण के बिना मेसर्स सोम रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर किसी भी बैंक खाते(तों) के साथ किसी भी तरह का कोई भी लेनदेन न करें। ऐसा कोई भी अनधिकत और अमान्य लेनदेन कानन में अवैध माना जाएगा और किसी भी तरह से कंपनी या एस.आर.ए को बाध्य नहीं करेगा। इसके अलावा, कंपनी के साथ-साथ एस.आर.ए किसी भी ऐसे अनधिकृत लेनदेन में लिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

U65990DL2017PLC322041] के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण खाता संख्या HLNLAPNOI0016782 के संबंध में मांग नोटिस दिनांकित 13.11.2024 जारी की थी जिसमें कर्जदारों पूजा सी/ओ अमित कुमार, अमित कुमार पुत्र करन सिंह से नोटिस में उल्लिखित दिनांक 13.11.2024 को राशि रु. 14,82,182/- (रुपये चौदह लाख बयासी हजार एक सौ बयासी मात्र) को 14.11.2024 से प्रभावी ऋण करार के अनुसार प्रोद्भूत / प्रोद्भूत की जाने वाली आगे की ब्याज और प्रभारों सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने पर कर्जदार तथा सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का 11.02.2025 को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा सर्व साधारण को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के लिए कोई भी लेन-देन दिनांक 13.11.2024 को राशि रु. 14,82,182/- (रुपये चौदह लाख बयासी हजार एक सौ बयासी मात्र) और उपरोक्तानुसार आगे की ब्याज और प्रभारों के लिए कैपीटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उपलब्ध समय के संबंध में प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सैड धाम रेजीडेंसी-।, गाँव सादुल्लापुर परगना और तहसील- दादरी, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश स्थित आवासीय खाली प्लॉट नं. 01, एरिया माप 150 वर्ग गज अर्थात 125.41 वर्ग मीटर, खसरा नं. 176 में से, के समस्त भाग व खंड, सभी अधिकारों (कॉमन एरिया, संस्थापनों, सुविधाओं के उपयोग और दखल, विकास अधिकारों आदि को शामिल करते हुए किंतु यही सीमित नहीं, के साथ (यथा लागू), और इस पर लगे सभी फर्नीचर, फिक्सर, फिटिंग्स और वस्तुओं सहित। **सीमाएँ निम्नवत् हैं: पूर्वः** रास्ता 16 फुट चौड़ा, पश्चिमः अन्य के प्लॉट, उत्तरः अन्य के प्लॉट, दक्षिणः अन्य के प्लॉट

(रु. लाख में, ईपीएस छोडक

दिनांकः 11.02.2025 स्थानः गौतम बुद्ध नगर

15.50

15.50

4.38

4.38

1.43

34.97

34.97

प्राधिकृत अधिकारी कैपीटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड

एशियन होटल्स (वेस्ट) लिभिटेड

सीआईएन : L55101DL2007PLC157518

निगमित एवं पंजीकृत कार्यालय : 6ठवाँ तल, एरिया टॉवर्स, जे.डब्ल्यू मेरिओट, एसेट एरिया 4, हॉस्पिटेलिटी डिस्ट्रिक्ट, आईजीआई एयरपोर्ट के समीप, नई दिल्ली— 110037 वेबसाइट : www.asianhotelswest.com; दूरभाष कार्यालय : 011-011 41597329, फैक्स : 011-41597321 दिनाँक 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (पृथक एवं समेकित) का साराँश

एकल परिणाम समेकित परिणाम विवरण समाप्त तिमाही समाप्त नौ माह समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त नौ माह समाप्त नौ माह समाप्त वर्ष समाप्त नौ माह 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2024 30/09/2024 31/12/2024 30/09/2024 31/12/2024 31/12/2023 31/03/2024 31/12/2024 31/03/202 । कल आय 140.64 419.58 723.98 981.76 11,254.25 9,856.73 29,967.21 2 निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक तथा / अथवा असाधारण मदों से पूर्व) (249.70)(630.20)(429.38)(1,120.24)(8,032.20)2,005.86 1,312.30 4,598.23 4,133.51 -662.14 3 निवल लाभ / (हानि) (कर पूर्व, आपवादिक तथा / अथवा (2,298.45)(1,120.24) 1,312.30 473.55 4,133.51 -662.14 4 निवल लाभ / (हानि) (कर उपरांत, आपवादिक तथा/अथवा (2,166.71)(62.25)(617.63)(2,214.61)(1,087.70) (7,986.43) 510.13 1,806.33 167.19 4,074.47 4,437.78 550.58 5 अवधि हेतु कुल व्यापक आय / (हानि), कर का निवल -3.76 0.36 -0.93 -2.81 0.36 0.72 6 प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10/- प्रति अंश का अंकित मूल्य) 1,165.12 1,165.12 1,165.12 1,165.12 1,165.12 1,165.12 1,165.12 1,165.12 1,165.12 1,165.12 1,165.12 1,165.12 7 बिकाया मोचनयोग्य अधिमान अंश 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 8 आय / (हानि) प्रति समता अंश जो रु. 10 प्रत्येक समता अंश का अंकित मूल्य परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों हेत् है- (अवार्षिकीकृत) (रु. में)

2. तरलीकृत

1) उपरोक्त साराँश, सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश है। इन वित्तीय परिणामों व पुनरीक्षण, लेखापरीक्षण समिति द्वारा किया गया था तथा निदेशक मण्डल द्वारा 12 फरवरी 2025 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया था। उपर्युक्त परिणामों का का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट : www.asianhotelswest.coi पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

0.12

0.12

(9.34)

(9.34)

(68.55

(68.55)

(5.30)

(5.30)

एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेर **हस्ता**. / अध्यक्ष तथा अकार्यपालक निर्देश डीआईएन : 0005794

38.09

38.09

4.73

4.73

सार्वजनिक सूचना र्वसाधारण को सचित किया जाता है कि भव आर–6/241 मोहल्ला राजनग ग्राबाद, नगर निगम के सम्पत्तिक अभिलेखों में दर्ज नाम श्री / श्रीमति मिथलेश त्यागी के स्थान पर श्री / श्रीमति संतोष कुमार्र का नाम दर्ज किये जाने हेतु बैंक ऑफ इण्डिय तरा की गई रजिस्ट्री अनापत्ति प्रमाण पत्र एव निर्धारित शुल्क जमा कर उक्त भवन पर अपन नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गय । नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 213 हे अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रदिक्ति व्यक्ति को उक्त भवन पर नाम परिवर्तन में आपत्ति हो तो वह कविनगर जोन प्राक्ष्यों सहित 30 दिवस के अन्दर अपना प्रार्थन पत्र प्रस्तुत करें। कर अधीक्षक

कविनगर जोन , नगर निगम गाजियाबाद।

ऋण राशि : रु. 1,55,00,000/

आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड: ANAND RATHI एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 10वीं मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे.

की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं।

हायगोनली अपोजिट ओबेरॉय <mark>मॉल, गोरेगाँव (पू.) मुम्बई</mark> 4000 जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह–कर्जदारों ने आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता ग्रहण की हैं। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायत ग्रहण करने के बावजूद, कर्जदारों/सह-कर्जदारों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा–निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन–पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी न पतिभति हित अधिनियम, २००२ की वित्तीय आस्त्रियो तथा पूर्वतन के प्रतिभतिकरण एवं पनिर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभत हित (पूर्वतन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त राक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/बंधककर्ताओं से सूचना में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनयम

कर्जदार/सह-कर्जदारों का नाम/पता (1) **श्री मोनु शर्मा (कर्जदार**) 216 ए डीडीए फ्लैट झिलमिल ईस्ट दिल्ली-110095। 492, छोटा बाजार, शाहदरा दिल्ल . (2) श्रीमती सोनिया शर्मा (सह-कर्जदार) 216 ए सत्यम एन्क्लेव डीडीए एलआईजी, झिलमिल ईस्ट दिल्ली-110095, (3) श्री प्रम कुमार शर्मा (सह-कर्जदार) 216 ए डीडीए फ्लैट झिलमिल ईस्ट दिल्ली–110095। संपत्ति का पताः छत के अधिकार के साथ पू नीसरी मंजिल, संपत्ति संख्या डी 217 (प्लॉट नंबर 217, ब्लॉक - डी) के 309 वर्ग गज को मापती है, जो झिलमिल ताहिरपर, आवार

उत्तरः सर्विस लेन 15 फीट चौड़ी दक्षिणः सड़क 80 फीट चौड़ी मांग सूचना की तिथि : 11.02.2025 एनपीए तिथि : 02.02.2025

आरओआई मूलधन बकाया लंबित ईएमआई राशि ब्रोकन अवधि ब्याज नोटिस चार्ज ईएमआई बाउंस चार्ज

बकाया राशि : रु. 1,55,45,667

47,56,917

6,36,039

1,10,948

55,45,667

1,100

APPL00005020 कुल बकाया र्युक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभृत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभृत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

2002 का नारा 15.19 / २० उत्तर गरा आपार नारमा का जारामा कावारा पांच वरकताजा का आरामू आरापा स्व करणा एन साला आराम यदि आप उपपृंकत सूचना के प्रयुक्त में कोई प्रतिभाग करना चाहते हैं तो कृषमा इसे हमारे अधिकृत प्रक्रिकारी श्री अधिक आन्तन राठी संलोबत फाइनेंस लिपिटेड, इवीं मींजल, 'ए' विंग, एक्सप्रेस जोन बिल्डिंग, वेस्टर्ग एक्सप्रेस हाईवे रोड, गोरेगाँव (पूर्व), मुम्बई-400 663 पर केवल हमें समयबद्ध उत्तर देने में सक्षम करने के लिए भेजें। कृषमा ध्यान दें कि यदि इसे किसी अन्य व्यक्ति या स्थान पर सम्बंधित किया जाता है तो इस सूचना के प्रचुत्तर में आपके किसी प्रतिनिधान का उतर देने के लिए इस उत्तरवर्ष नहीं होंगे। कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभृत लेनदार की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभृत आस्ति को बिक्री, पट्टे य

अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

स्थान : नई दिल्ली दिनाँक : 12 फरवरी, 2025